



रामाज्ञा स्कूल, नौएडा

हिंदी ओलम्पियाड- कार्यपत्रिका (2018-19)

माह-जुलाई

कक्षा-10

पूर्णांक-20

निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छाँटिए-

एक तरफ उसने पाया की धार्मिक पुस्तकें और धार्मिक लोगों के कथनों से कुछ और बात निकलती है, लेकिन जो आस-पास के वातावरण में उन्हें देखने को मिलता है तथा ये धार्मिक लोग स्वयं जो व्यवहार करते हैं, वह कुछ और है, लेकिन उसमें सामाजिक-आर्थिक विसंगतियों और ईश्वर के प्रति आस्था में अन्तर्सम्बन्ध पहले नहीं देखे थे। जिन लोगों ने ईश्वर में आस्था बाद में खो दी, उन्होंने मन कि उसका मूल कारन उनका पुस्तकों से बचपन से ही संपर्क में आना रहा है। बाद में निरीश्वरवादी विचारों तथा नास्तिकों के संपर्क में आने से ईश्वर के प्रति उनकी आस्था मजबूत हुई, उसे एक निश्चित दिशा मिली वे नहीं मानते कि उनके इस जीवन में बाद में कभी ऐसा कोई समय भी आ सकता है, जब वे ईश्वर की तरफ पुनः लौटने की बाध्यता महसूस करेंगे, हालाँकि वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा है, जो अपने युवाकाल में घनघोर नास्तिक थे, मगर जीवन के अंतिम दौर तक आकर घनघोर आस्तिक बन गए।

1. लेखक के आस-पास के वातावरण में धार्मिक लोग जो व्यवहार करते हैं, वह कैसा है ?

- (क) वह कुछ और है। (ख) वह गलत होता है।
(ग) वह ठीक नहीं है। (घ) वह दिखावा होता है।

2. लेखक ने सामाजिक-आर्थिक विसंगतियों और ईश्वर के प्रति आस्था में पहले क्या नहीं देखा था?

- (क) सह-सम्बन्ध (ख) अन्तर्सम्बन्ध
(ग) घर के सम्बन्ध (घ) बाहरी सम्बन्ध

3. ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था कैसे मजबूत हुई ?

- (क) निरीश्वरवादी विचारों तथा नास्तिकों के संपर्क में आने से।
(ख) केवल निरीश्वरवादी विचारों से।
(ग) केवल नास्तिकों के संपर्क में आने से।
(घ) आस्तिक विचारधारा से।

4. युवाकाल में जो घनघोर आस्तिक थे, वे जीवन के अंतिम दौर तक आकर बन गए-

(क) घोर विरोधी। (ख) घोर आस्तिक।
(ग) घोर पक्षधर। (घ) घोर आशावादी।

5."आस्था" शब्द के लिए विपरीतार्थक छांट लें।

(क) अनास्था (ख) अवस्था (ग) नास्तिक (घ) आस्तिक

6."घिनोने घने" में प्रयुक्त अलंकार छाँटिए-

(क) अतिशयोक्ति (ख) अनुप्रास (ग) यमक (घ) श्लेष

7.उद्देश्य छाँटिए- वह मथुरा जायेगा-

(क) वह (ख) मथुरा (ग) जायेगा (घ) वह मथुरा

8."चंद्र+ उदय" की संधि छाँटिए-

(क) चन्द्रादय (ख) चंद्रोदय (ग) चन्द्रोदय (घ) चंद्रदय

9."सप्तषि" के लिए संधि-विच्छेद छाँटिए-

(क) सप्त + ऋषि (ख) सप्ता + रिषि (ग) सप्त + ऋषि (घ) सप्तो + षि

10. "नीलगगन" समस्त पद का नाम छाँटिए-

(क) कर्मधारय (ख) द्वंद्व (ग) तत्पुरुष (घ) अव्ययीभाव

11. "देश निकाला" का समास विग्रह छाँटिए-

(क) देश से निकाला (ख) देश का निकला (ग) देश को निकला (घ) देश में निकला

12. कर्मधारय समास छाँटिए-

(क) नीलकमल (ख) तुलसीकृत (ग) गंगातट (घ) सेनानायक

13. "बहुत घमंड होना" के लिए उचित मुहावरा छाँटिए-

(क) जमीन पर गिरना (ख) जमीन पर पैर ना टिकना
(ग) जमीन पर रहना (घ) जमीन पर टिकना

14. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था-

(क) ७ मई १८६० (ख) ७ मई १८६५ (ग) ७ मई १८६१ (घ) ७ मई १८९०

15. जिस नगर को उत्तराखंड स्थित चार धामों का प्रवेश द्वार कहा जाता है-
- (क) ऋषिकेश (ग) देवप्रयाग (ख) देहरादून (घ) हरिद्वार
16. भीष्म पितामह का प्रारंभिक नाम क्या था -
- (क) देवव्रत (ख) देवदत्त (ग) शांतनु (घ) संजय
17. सफ़ेद झंडा प्रतीक होता है -
- (क) विरोध का (ख) क्रांति का (ग) देश भक्ति का (घ) युद्ध विराम का
18. भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है -
- (क) केरल (ख) उत्तरप्रदेश (ग) महाराष्ट्र (घ) दिल्ली
19. 'शब्द' के लिए उदाहरण छाँटिए -
- (क) मुरारी (ख) सुखी व्यक्ति हमेशा आराम की नींद सोता है
(ग) लड़की गाती है (घ) लड़की गाना गाकर चली गई
20. संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र वाक्य किस से जुड़े होते हैं -
- (क) योजक (ख) अथवा (ग) प्रत्यय (घ) उपसर्ग